

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2022

चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर चोरी करने के आरोपी अभियुक्त फिदा हुसैन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल (टी0वी0एस0 आपाची) बरामद की गई। जिसको अभियुक्त मोटरसाइकिल का नम्बर प्लेट बदल कर बेचने जा रहा था। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. फिदा हुसैन उर्फ मुन्ना पुत्र अली हुसैन निवासी असरना तिवारीपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 319/2022, धारा411,413/419/420/467/468 भादवि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 आपाची।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सावन सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 20 अभियुक्त गिरफ्तार, 230 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 ली0 शराब, थाना को0 देहात पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 31 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मनकापुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 24 ली0 शराब व 1 किलो ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण, थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 शराब, थाना छपिया पुलिस ने 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60 ली0 शराब, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 शराब, थाना परसपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 शराब, थाना तरबगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.08.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय स्वाना कर दिया गया।